

बाजार की बढ़त में मिड कैप दे सकते हैं बेहतर रिटर्न

मुंबई, जेएनएन। पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में तेजी है और अब मिड कैप शेयर इस समय डिस्काउंट पर कारोबार कर रहे हैं। जिसकी वजह से आनेवाले समय में मिड कैप शेयर अच्छा रिटर्न



दे सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय से मिड कैप शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। जनवरी 2018 में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद बड़े बाजार इस समय गिरावट की चपेट में हैं। भारत में निफ्टी मिडकैप इंडेक्स निफ्टी 50 के आधार पर डिस्काउंट में कारोबार कर रहा है।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स पिछले 18 महीनों में 18 फीसदी गिरा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह समय मिडकैप शेयरों के लिए अच्छा है। निफ्टी 100 मिडकैप और बीएसई 100 मिडकैप इस समय निफ्टी 50 के आधार पर 15 फीसदी डिस्काउंट पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ अभी भी म्यूचुअल फंड हैं, जिनकी मिड कैप स्कीमों ने अच्छा रिटर्न निवेशकों को दिया है। इसमें इनवेस्को म्यूचुअल फंड की स्कीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इनवेस्को इंडिया मिडकैप फंड ने 31 मई 2019 के आधार पर तीन साल में 12.74 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि निफ्टी मिडकैप 100 टीआरआई ने 11.71 फीसदी का लाभ दिया है। पांच साल में इस फंड ने 15.14 फीसदी का लाभ दिया तो निफ्टी बेंचमार्क ने 13.33 फीसदी का लाभ निवेशकों को दिया है। सात साल में 19.71 फीसदी का रिटर्न इनवेस्को इंडिया ने दिया है तो निफ्टी ने 16.06 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस तरह इस फंड ने बेंचमार्क की तुलना में हर अवधि में बेहतर रिटर्न दिया है। एसआईपी की बात करें तो उपरोक्त फंड ने तीन साल में 7.52 फीसदी का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी मिडकैप टीआरआई के एसआईपी का रिटर्न एक्सआईआरआर 3.25 फीसदी रहा है।